



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259964
CG-DL-E-06012025-259964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946

No. 53]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ. 55(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4223 तारीख 25/09/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH-NE5A के कि.मी. 62.25 से कि.मी. 98.935 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०६.१०.२०२४" को "ट्रिब्यून अंग्रेजी" और "अजित पंजाबी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को

अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH-NE5A के कि.मी. 62.25 से कि.मी. 98.935 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: अमृतसर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अमृतसर -I					
गांव का नाम: छपा राम सिंह					
1	18//15	निजी	कृषि	0.0153	18//15/2-क्षेत्र (0-0) केवल सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र मूला सिंह हिसादर बया हरविंदर कौर पत्नी हरिंदर सिंह मुस्तरी 18//15/3-क्षेत्र(0-0) जसवीर कौर पत्नी पिंदर सिंह पुत्र खुजान सिंह 3/40 भाग जसविन्दर सिंह पुत्र पिंदर सिंह पुत्र खुजान सिंह 3/40 भाग रोबिन जोशी पुत्र अयोध्या जोशी पुत्र जसवन्त राय 3/40 भाग राघव जोशी पुत्र अयोध्या जोशी पुत्र जसवन्त राय 3/40 भाग बलविंदर कौर पत्नी दलजिंदर सिंह पुत्र सोदागर सिंह 1/10 भाग हरजिंदर कौर पत्नी अवतार सिंह पुत्र सोदागर सिंह 1/10 भाग सुनील कुमार पुत्र लेखराज 3/40 भाग

					<p>संजीव गोयल पुत्र योगराज गोयल 3/40 भाग मनोज छाबड़ा पुत्र दर्शन छाबड़ा 1/20 भाग सतपाल पुत्र बनारसी दास 1/40 भाग योगेज सचदेवा पुत्र सीपी सचदेवा 1/40 भाग हरजिंदर कौर पत्नी नानक सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/16 भाग खुशमीत कौर पुत्री नानक सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/16 भाग कोमलमीत कौर पत्नी नानक सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/16 भाग सुमित कौर पुत्री नानक सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/16 भाग</p>
2	31//10	निजी	कृषि	0.0733	<p>हरजीत सिंह पुत्र जग्गा सिंह पुत्र बुध सिंह 1/5 भाग कश्मीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग दलबीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग मुख्तार सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग जागीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्र गोपाल सिंह पुत्र जग्गा सिंह बीबी 2/10 भाग परबपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/25 भाग अनमोल सिंह, कंबीर सिंह पुत्र हरजीत सिंह पुत्र जग्गा सिंह 2/10 भाग बुपिंदर सिंह, नरिंदर सिंह, बलविंदर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र जग्गा सिंह बीबी</p>

					1/5 भाग
3	31//11	निजी	कृषि	0.0506	31//11/2 क्षेत्र(0-0) कृपाल सिंह पुत्र अच्छर सिंह पुत्र पंजाब सिंह 1/2 भाग सुखदेव सिंह पुत्र किरपाल सिंह पुत्र अच्छर सिंह 1/4 भाग कुलदीप सिंह पुत्र कृपाल सिंह पुत्र अच्छर सिंह 1/4 भाग 31//11/3 क्षेत्र(0-0) हरजीत सिंह पुत्र जग्गा सिंह पुत्र बुध सिंह 1/5 भाग कश्मीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग दलबीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग मुख्तार सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग जागीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र जग्गा सिंह 1/25 भाग सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्र गोपाल सिंह पुत्र जग्गा सिंह बी.बी. 2/10 भाग परबपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/25 भाग अनमोल सिंह, कंबीर सिंह पुत्र हरजीत सिंह पुत्र जग्गा सिंह 2/10 भाग बुपिंदर सिंह, नरिंदर सिंह, बलविंदर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र जग्गा सिंह बी.बी. 1/5 भाग
4	32//5/1	निजी	कृषि	0.1214	हरप्रीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह पुत्र सुरैन सिंह
गांव का नाम: मेउका					
5	25//15	निजी	कृषि	0.1112	हरदियाल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह 1/2 भाग

					धरमिंदर सिंह पुत्र दियाल सिंह 1/4 भाग गुरजीत सिंह पुत्र दियाल सिंह 1/4 भाग
Total				0.3718	

[फा. सं. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2025

S.O. 55(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4223 Dated:25/09/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5A in the stretch of land from Km. 62.25 to Km. 98.935 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

And whereas the substance of the said notification has been published in “Tribune English” and “Ajit Punjabi” both dated 06.10.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5A in the stretch of land from Km. 62.25 to Km. 98.935 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			District: AMRITSAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Amritsar -I					
Village: Chhapa Ram Singh					
1	18//15	Private	Agriculture	0.0153	18//15/2-Area (0-0) Kewal Singh son of Bachan Singh son of

					<p>Mula Singh hissadar baya harwinder kaur wife Harinder singh Mustrie 18//15/3- Area(0-0) Jasbir Kaur wife Pindar Singh son Khujan Singh 3/40 part Jaswinder Singh son Pindar Singh son Khujan Singh 3/40 part Robin Joshi son Ayodhya Joshi son Jaswant Rai 3/40 part Ragav Joshi son Ayodhya Joshi son Jaswant Rai 3/40 part Balwinder Kaur Wife Daljinder Singh son Sodagar Singh 1/10 part Harjinder Kaur wife Avtar Singh son Sodagar Singh 1/10 part Sunil Kumar son Lekhraj 3/40 part Sanjeev Goel son Yograj Goel 3/40 part Manoj Chhabra son Darshan Chhabra 1/20 part Satpal son Banarasi Das 1/40 part Yogage Sachdeva son CP Sachdeva 1/40 part Harjinder Kaur wife Nanak Singh son Avtar Singh 1/16 part Khushmeet Kaur daughter Nanak Singh son Avtar Singh 1/16 part Komalmeet Kaur wife Nanak Singh son of Avtar Singh 1/16 part Sumit Kaur daughter Nanak Singh son of Avtar Singh 1/16 part</p>
2	31//10	Private	Agriculture	0.0733	Harjit Singh son of Jagga Singh son of

					Budh Singh 1/5 part Kashmir Singh son of Teja Singh son of Jagga Singh 1/25 part Dalbir Singh Son Teja Singh son Jagga Singh 1/25 part Mukhtar Singh son Teja Singh son Jagga Singh 1/25 part Jagir Singh son Teja Singh son Jagga Singh 1/25 part sukhdev singh , Hardev singh son of Gopal singh son of jagga singh B.B 2/10 part Parabpal singh son Gurdev singh son Teja singh 1/25 part Anmol singh , Kanbir singh son of Harjit singh son of Jagga singh 2/10 part Bupinder singh , Narinder singh ,Balwinder singh son of Dalip singh son of Jagga singh B.B 1/5 part
3	31/11	Private	Agriculture	0.0506	31/11/2 Area(0-0) Kirpal Singh son Achhar Singh son Punjab Singh 1/2 part Sukhdev Singh son Kirpal Singh Son Achhar Singh 1/4 part Kuldeep Singh son Kirpal Singh Son Achhar Singh 1/4 part 31/11/3 Area(0-0) Harjit Singh son Jagga Singh son Budh Singh 1/5 part Kashmir Singh son Teja Singh son Jagga Singh 1/25 part Dalbir Singh Son Teja Singh son Jagga

					Singh 1/25 part Mukhtar Singh son Teja Singh son Jagga Singh 1/25 part Jagir Singh son Teja Singh son Jagga Singh 1/25 part sukhdev singh , Hardev singh son Gopal singh son jagga singh B.B 2/10 part Parabpal singh son Gurdev singh son Teja singh 1/25 part Anmol singh , Kanbir singh son Harjit singh son Jagga singh 2/10 part Bupinder singh , Narinder singh ,Balwinder singh son Dalip singh son Jagga singh B.B 1/5 part
4	32//5/1	Private	Agriculture	0.1214	Harpreet Singh SIn Guljar Singh SON Surain Singh
Village: Meuka					
5	25//15	Private	Agriculture	0.1112	Hardiyal Singh Son Bakhsish Singh 1/2 part Dharminder Singh Son Diyal Singh 1/4 part Gurjit Singh Son Diyal Singh 1/4 part
Total				0.3718	

[F. No. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3D]
ABHAY JAIN, Director